



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019

Bhadra 4, Monday, Saka 1941–August 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/7639 .-In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Jaisalmer has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Jaisalmer. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Governement

क्र. सं.	वार्ड सं. प्रारूप	संशोधित वार्ड संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
01	01	01	पवन सुदा के रिजॉर्ट से बाये-बाये नगर परिषद सीमा होते हुए अमर सागर फान्चा से दक्षिण धिरण टिब्बा से एयरफोर्स की बाउन्ड्री लेते हुए एयरोड्राम की सड़क को लेते हुए उत्तर की ओर सड़क से पुर्व में डाईट क्वाटर के पिछे से डाइट क्वाटर लेते हुए पुलिस अधिक्षक का कार्यालय व पुलिस लाईन का समस्त क्षेत्र छोड़ते हुए शहीद पूनम सिंह स्टेडिय की दक्षिणी दीवार से महेन्द्र व्यास के सामने चौराहे तक सड़क को शामिल करते हुए वापस उत्तर की ओर डिवाईडर से बाए-बाए हनुमान चौराहा गीता आश्रम भाटिया मुकितधाम को लेते हुए डेडानसर रामगढ़ बाईपास रोड को लेते हुए सड़क के दाए-दाए पवन सुदा के रिजॉर्ट तक का समस्त क्षेत्र।
02	02	02	सम रोड स्थित पुलिस अधिक्षक कार्यालय की पश्चिमी दीवार से पश्चिम की ओर डाइट क्वाटरों को छोड़ते हुए धिरण टिब्बा से दक्षिण की ओर नगर परिषद की सीमा एयरफोर्स छोड़ते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी के बाए-बाए प्रथम गेट के सामने हनुमान मन्दिर से उत्तर की ओर सड़क से बाए-बाए जयनारायण व्यास कॉलोनी के भूखण्ड छोड़ते हुए कब्रिस्तान की पुर्वी दीवार से मगरा होते हुए पानी की टंकी की सड़क के बाए-बाए सड़क को लेते हुए राजपुत छात्रावास लेते हुए की दक्षिणी दीवार से राजपुत छात्रावास की पुर्वी दीवार से नीरज बस स्टेण्ड से नीरज बस स्टेण्ड चौराहा तक व उत्तर की ओर डिवाईडर से होते हुए महेन्द्र व्यास का मकान व राजकीय आवास शामिल कर स्वाद रेस्टोरेन्ट की पूर्व की

			बाउन्डी से पुलिस लाईन के क्वाटर, पुलिस लाईन कार्यालय को शामिल करते हुए उत्तर की ओर पुलिस लाईन की सीमा मेरियट होटल को छोड़ते हुये होटल के पश्चिम से उत्तर की ओर पुलिस अधिक्षक कार्यालय तक का समस्त क्षेत्र।
03	03	20	नीरज बस स्टेंड चौराहे से दक्षिण की ओर जंगाणी धर्म पंचायत को शामिल करते हुए राजपुत छात्रावास की दक्षिणी पुर्वी कोने से पानी की टंकी की लाइन को शामिल करते हुए बाए—बाए नीचे मगरे की ढलान से कब्रिस्तान के दक्षिणी पुर्वी कोने से राणीसर स्थित हनुमान मन्दिर के सामने जयनारायण व्यास कॉलोनी को लेते हुए मन्दिर के सामने एयरफोर्स सड़क को शामिल करते हुए सेन्ट पाल स्कूल की दक्षिणी दीवार से सेन्ट पॉल स्कूल के पीछे स्थित कॉलोनी, हजुरी बेरा को शामिल कर कब्रिस्तान को छोड़ते हुए बेरा रोड तक व बेरा रोड से कच्चा रास्ता होतु हुए एयर पोर्ट नई सड़क छोड़ते हुए पुर्व की ओर गडीसर पाल से मुक्तेश्वर मन्दिर को शामिल कर व्यास बगिची से सरकारी स्कूल सड़क शामिल करते हुए स्कूल के सामने से कस्टम ऑफिस के सामने साईबाबा मन्दिर से बाए—बाए नीरज बस स्टेंड चौराहा तक सड़क को शामिल करते हुए समस्त क्षेत्र।
04	04	21	मुक्तेश्वर मन्दिर से पश्चिम की ओर गडीसर पाल को लेते हुए बेरा रोड से उत्तर दिशा मे सड़क के बायें में स्थित कब्रिस्तान को लेते हुए उत्तर दिशा में समस्त रहवासीय मकान, हजुरी समाज बेरा छोड़ते हुए सेन्टपॉल की दक्षिणी दीवार के बाए—बाए हनुमान मन्दिर को शामिल करते हुए एयरफोर्स प्रथम गेट तक व इससे पुर्व की ओर एयरफोर्स बाउन्ड्रीवाल के बाए राणीसर तालाब को शामिल करते हुए राणीसर कच्ची बस्ती को लेते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी से दक्षिणी ओर नगर परिषद की सीमा तक व पुर्व की ओर खेतरपाल स्थान व सोनाराम की ढाणी को शामिल करते हुए जोशीरा तालाब तक वापस उत्तर की ओर खुहड़ी मुख्य सड़क से एयरपोर्ट चौराहा से जैसलमेर जाने वाली मुख्य सड़क को शामिल करते हुए मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर जाने वाले कच्चे रास्ते से मुक्तेश्वर महादेव तक का समस्त क्षेत्र।
05	05	22	गडीसर चौराहे से स्वामियों के शमशान के बाए—बाए गलर्स स्कूल को छोड़ते हुए सड़क से दक्षिण की ओर व्यास बगिची व मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर को छोड़ते हुए मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर से खुहड़ी रोड कच्चा रास्ता से दक्षिण की ओर एयरपोर्ट चौराहा से जोशीरा तालाब के पास नगर परिषद की सीमा से उत्तर की ओर भाटियासर, मोहतासर तालाब को लेते हुए वापस पश्चिम की ओर तोताराम की ढाणी पानी की टंकी से वन विभाग की दक्षिणी दीवार से सीएडी कॉलोनी को शामिल करते हुए तोताराम की ढाणी व जोगीयो का वास लेते हुए सीएडी की उत्तरी दीवार से मुख्य सड़क से उत्तर की ओर उपनिवेशन विभाग कार्यालय को छोड़ते हुए दक्षिणी दीवार से गडीसर की पाल बिस्सा बगेची श्रीमाली बगेची शामिल करते हुए गडीसर चौराहे तक समस्त क्षेत्र।
06	06	43	यूनियन चौराहा से दक्षिणी ओर खुहड़ी सड़क को शामिल करते हुए सीएडी कॉलोनी की उत्तर की दीवार से वन विभाग की चारदीवारी से पुर्व की ओर पानी की टंकी को छोड़ते हुए उत्तर की ओर चारदीवारी के कोने से पश्चिम की ओर बरसाती नाता को छोड़ते हुए उत्तर की ओर बाड़मेर रोड के बाए—बाए यूनियन चौराहे तक समस्त क्षेत्र।
07	07	44	बबर मगरा कच्ची बस्ती के नाले के उत्तरी छोर से नाले को लेते हुए दक्षिण की ओर वन विभाग की चारदीवारी तक व वन विभाग की चारदीवारी पुर्व कोने से

			दक्षिणी कोने तक बाए-बाए दीवार के सहारे पश्चिम की ओर पानी की टंकी छोड़ते हुए पूर्व दिशा में मोहतासर तालाब को लेते हुए उत्तर की ओर सुदासर तालाब की पुर्वी पाल से उत्तर बाड़मेर सड़क से बाए-बाए सड़क को छोड़ते हुए बबर मगरा, सुदासर कच्ची बस्ती, होटल कॉम्प्लेक्स का समस्त क्षेत्र लेते हुए बबर मगरा नाले तक का समस्त क्षेत्र।
08	08	45	इन्द्रा कॉलोनी लिंक रोड जोधपुर बाइपास रोड से सड़क को शामिल करते हुए दक्षिणी ओर सड़क के दाए-दाए युनियन चौराहा शामिल करते हुए पूर्व की ओर बाड़मेर सड़क को शामिल करते हुए डीटीओ कार्यालय के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर नगर परिषद की सीमा को लेते हुए हिंगलाज मन्दिर से पूर्व स्थित बाइपास रोड से उत्तर की ओर जोधपुर रोड से रेवन्त सिंह की ढाणी सड़क को शामिल करते हुए सड़क के दाए-दाए बीएसएफ की दीवार के रामगढ़ बाइपास तिराहा से होते हुए लिंग रोड तक समस्त क्षेत्र।
09	09	41	रेलवे फाटक रामगढ़ बाइपास के पास स्थित सिंगनल से बाए-बाए रेलवे फाटक होते हुए गन्दा नाला को शामिल करते हुए दाए-दाए दिरियानाथ की बाउन्ड्री की समस्त क्षेत्र लेते हुए मोहननाथ स्वामी का मकान लेते हुए पोकरण रोड को छोड़ते हुए बीएसएफ के दक्षिणी व पश्चिमी कोने तक उत्तर की ओर आईबीरेस्ट हाउस के पूर्व से बीएसएफ की दीवार के बाए-बाए शिल्पग्राम को शामिल करते हुए रेलवे सिंगनल का समस्त क्षेत्र।
10	10	06	जेटवाई सड़क पर स्थित सीमाजन छात्रावास से राजस्थान आवासन मण्डल के आगे मुख्य सड़क से शिवदानपुरी धूणा तक सड़क के दाए-दाए धूणा से पश्चिम मगरा के उपर नगर परिषद सीमा से दक्षिण रामगढ़ बाइपास से बाए-बाए ट्रॉसपोर्ट नगर चौराहा से गॉथी कॉलोनी की ओर सड़क को शामिल करते हुए टीकाराम पालीवाल पार्क के सामने से होते हुए आईटीआई नाला कॉस के पूर्व में गन्दा नाला को शामिल करते हुए पूर्व की ओर कृषि मण्डी को शामील रखते हुए कृषि मण्डी की पुर्वी दीवार से रामगढ़ बाइपास पर रेलवे फाटक से उत्तर रेलवे सिंगनल से पश्चिम रामनगर के पीछे का मगरा की ढलान से रा.आ.मण्डल को शामिल करते हुए रा.आ.मण्डल की उत्तरी पूर्वी कोने से सीमांकन छात्रावास को शामिल करते हुए बाए-बाए समस्त क्षेत्र।
11	11	05	लक्ष्मीचन्द सांवल कॉलोनी की उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित सलिए की डूंगरी व लक्ष्मीचन्द सांवल कॉलोनी नगर परिषद सीमा से पूर्व रामगढ़ बाइपास रोड को शामिल करते हुए धूमकर डेडानसर सड़क के दाए-दाए जैनियों के शमशान ग्रामीण बस स्टैण्ड को छोड़ते हुए माली समाज की दक्षिणी बाउन्ड्री से पूर्व की ओर होटल हीरा कोर्ट से सीधे मगरे के ऊपर होते हुए डेडानसर मेदान के पीछे मगरा को लेते हुए रामगढ़ बाइपास रोड तक पूर्व की ओर रामगढ़ बाइपास रोड को शामिल करते हुए मुड़कर भीलबस्ती के सामने नगर परिषद की चारदीवारी से उत्तर की ओर मगरे से पूर्व शिवदानपुरी मठ को छोड़ते हुए सीमाजन छात्रावास को छोड़ते हुए लक्ष्मीचन्द सांवल कॉलोनी की उत्तरी पूर्वी सीमा से सलिए की डूंगरी तक का समस्त क्षेत्र।
12	11	04	डेडानसर सड़क पर स्थित माली समाज की दक्षिणी बाउन्ड्री से दक्षिणी ओर भाटीया मुक्तिधाम के पास से गीताआश्रम चौराहे तक सड़क को शामिल करते हुए व जयराम धाटी के मकान के बाए-बाए पुराना बस स्टैण्ड के सामने गीता आश्रम कच्ची बस्ती की सड़क से पूर्व धूमकर अमृतलाल के मकान के कोने से पूर्व के मकान को लेते हुए सड़क के दाए-दाए लौहारों के मकान लेते हुए दक्षिण दशहरा बुर्ज के पीछे की सड़क तक व वापस उत्तर की ओर हमीरसर तालाब की ढलान से पश्चिमी ओर होटल हीरा कोर्ट को छोड़ते हुए माली समाज

			की दक्षिणी बाउण्ड्री तक का समस्त क्षेत्र।
13	12	11	टाउन हॉल के पिछे स्थित मगरा से दक्षिण की ओर जोगमाया मन्दिर की पश्चिमी ढलान से दशहरा बुर्ज की गली में सीढ़ीयों के नीचे प्रजापत के मकान से दक्षिण लौहारों के मकान छोड़ते हुए एच.पी.गैस गोदाम के पीछे की गली दाए—दाए अमृतलाल के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर आकाशवाणी से पश्चिम गीताआश्रम सड़क को लेते हुए माहेश्वरी सेवा सदन से पुर्व अमर सागर प्रोल के सामने मुत्रालय से उत्तर मीरा महल होटल को छोड़ते हुए सड़क को शामिल करते हुए मलका प्रोल पार्किंग के पास जैन भवन की उत्तरी सीमा से मलका प्रोल होते हुए जीवणर्याई तालाब की उत्तर — पुर्व पाल से पश्चिम होते हुए टाउन हॉल के पिछे स्थित मगरा तक का समस्त क्षेत्र।
14	13	03	हनुमान चौराहे पर स्थित स्वागत ट्रेवल्स को छोड़ते हुए पैट्रोल पम्प की लाइन छोड़ते हुए सड़क के दाए—दाए सम चौराहा से आगे नीरज बस स्टेप्प तक सड़क को शामिल करते हुए उत्तर की ओर राइका पैलेश होटल के सामने पावर हॉउस सड़क को शामिल करते हुए नेहरू पार्क की दक्षिणी दीवार के पश्चिमी कोने से पुर्व की ओर आनन्द टेन्ट हाउस की गली से होते हुए सड़क को शामिल करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के सामने पुर्व की ओर सार्वजनिक मुत्रालय से भाटिया भवन को छोड़ते हुए सदर बाजार से पश्चिम की ओर गोपाचौक अमरसागर प्रोल से होते हुए चोक को शामिल कर माहेश्वरी सेवा सदन को छोड़ते हुए हनुमान चौराहा पार्किंग से हनुमान मन्दिर को छोड़ते हुए समस्त क्षेत्र।
15	14	18	पंजाब नेशनल बैंक से दक्षिण की ओर आनन्द टेन्ट हाउस के बाए—बाए दाए हजुरी पंचायत भवन शहर पनाह की दीवार से दक्षिण रायका पैलेश होटल को शामिल करते हुए सड़क को छोड़कर पुर्व की ओर शिव मन्दिर तथा उत्तर की ओर किले की दीवार से दाए—दाए सार्वजनिक मुत्रालय को छोड़ते हुए वापस पंजाब नेशनल बैंक तक का सड़क को शामिल करते हुए समस्त क्षेत्र।
16	15	19	आनन्द ट्रॉसपोर्ट के उत्तरी भाग पर चाय की दुकान से दक्षिण की ओर रमेश इन्जि. वर्क्स से पुर्व जंक्शन के सामने की सड़क को छोड़ते हुए नगर परिषद के दक्षिण सड़क से आगे बीपी टैंक व वाटिकाओं को शामिल करते हुए गर्ल्स स्कूल के सामने स्थित सड़क उत्तर की ओर केसराराम सुथार के मकान व दुकान को छोड़कर होटल भारत विलास से पश्चिम की ओर पीर मोहम्मद मस्जिद को छोड़ते हुए सड़क को शामिल कर मारु पैलेश होटल को छोड़ते हुए लकड़ियों की टाल के सामने सड़क से उत्तर की ओर किला पार्किंग को छोड़ते हुए रिंग रोड से पश्चिम की ओर चाय दुकान तक का समस्त क्षेत्र।
17	16+17	40	गडीसर चौराहा से दक्षिण गडीसर पाल पूर्व की ओर से बाला पीर दरगाह से पुर्व खुहड़ी रोड उपनिवेशन विभाग से सड़क को शामिल करते हुए उत्तर की ओर यूनियन चौराहा से उत्तर आईजीएनपी गौदामों की लाइनों को लेते हुए पश्चिम की ओर प्रभुदान देथा के मकानों के सामने आईजीएनपी चारदीवारी से आईजीएनपी स्कूल के पूर्व व उत्तरी दीवार तक उत्तर की ओर जोधपुर सड़क डीआरडीए क्वार्ट्स व बैंक कॉलोनी लेते हुए पश्चिम गन्दानाला से उत्तर की ओर रेल्वेफाटक तक व वापस पश्चिम व दक्षिण धुमकर रेल्वे की बाउण्ड्रीवाल के बाए—बाए पानी की टंकी फायर स्टेशन को शामिल करते हुए कब्रिस्तान की पुर्व दीवार से दक्षिण—पुर्व कोना लेते हुए वापस पश्चिम की ओर बीकानेर स्वीट होम के बाए—बाए गडीसर चौराहा तक का समस्त क्षेत्र।
18	18	42	डीआरडीए चौराहा इन्दा कॉलोनी से दक्षिण आईजीएनपी स्कूल पुठियास में दीवार से पूर्व उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिण आईजीएनपी दीवार से पुर्व प्रभुदान

			देथा मकान की लाइन को लेते हुए उत्तर की ओर लिंक रोड के बाए—बाए होते हुए जोधपुर रोड जीएसएस के सामने से होते हुए वापस डीआरडीए चौराहे तक सड़कों को शामिल करते हुए समस्त क्षेत्र।
19	19	23	मारू पैलेस होटल से पुर्व की ओर सड़क को छोड़ते हुए केशराम के मकान व दुकान को शामिल करते हुए गर्ल्स स्कूल के सामने सड़क को छोड़ते हुए मुख्य सड़क पर्यटक स्वागत केन्द्र तक व सड़क को शामिल करते हुए श्रीमाली चौराहे तक व उत्तर की ओर सड़क को शामिल करते हुए गडीसर प्रोल से टीकमदास सोनी (होन्डा शौरूम) से होते हुए पश्चिम सुमार खा की दुकान व मकान से सड़क को शामिल करते हुए व हासम खा पुत्र शेर खां के मकान की लाईन लेते हुए सभा भवन तक व इससे दक्षिण कंधारी मस्जिद को छोड़ते हुए लकड़ीयों की टाल को लेते हुए माणक गिरी व जयनारायण भाटीया के मकान को शामिल कर पश्चिम सुलभ कॉम्प्यूक्स को लेते हुए दक्षिण की ओर ज्युस की दुकान को शामिल करते हुए होटल मारू पैलेस तक का समस्त क्षेत्र।
20	20	12	मीरा महल होटल के पश्चिमी ओर सड़क से दक्षिण की तरफ महाराणा प्रताप मैदान की पूर्वी चारदीवारी से सड़क को शामिल करते हुए अमर सागर प्रोल गणेश जी मन्दिर से गोविन्दम टेक्सटाइल से गाँधी चौक को छोड़ते हुए अजंता स्टोर को छोड़ते हुए शारदा हैन्डलूम से सोनम ब्यूटी पार्लर तक गली के दोनों ओर मकानों को छोड़ते हुए मकानों की पुठियास से भवरलाल छंगाणी का मकान व छंगाणी पाड़ा छोड़ते हुए उत्तर नाइयो के मकानों को लेते हुए माली पाड़ा के मकानों में शामिल कर भगतसिंह के मकान से ICICI बैंक छोड़ते हुए अर्जुनसिंह के मकान के सामने से जैन भवन की सीमा के उत्तरी पुर्व कोने से पश्चिम की ओर मीरा मल तक का समस्त क्षेत्र।
21	21	13	अजन्ता स्टोर से पुर्व की ओर सदर बाजार से विधायक पाटा व इससे आगे राणीदान सेवक की दुकान से उत्तर दिशा में मठ को शामिल करते हुए किशनलाल जोशी के मकान की लाईन को शामिल करते हुए चान्दनमल सांवल के मकान की पुठियास से भगवती केला के मकान तक व दीनदयाल ओझा, कुम्हार पाड़ा स्कूल को शामिल करते हुए, पीपल चोकी से मोहनलाल केला का बाड़ा लेते हुए दक्षिण की ओर वासु छपरी गोयदानी पाड़ा, कंधारी पाड़ा, घंगानी पाड़ा, भंवरलाल छंगाणी के मकान तक, सोनम ब्यूटी पार्लर से सारदा हैन्डलूम तक गली के दोनों ओर के मकानों को लेते हुए दक्षिण की ओर अजन्ता स्टोर तक का समस्त क्षेत्र।
22	22	14	रमेश टॉकिज के पुठियास मे ICICI बैंक के नीचे चौक से पूर्व दिशा में कुम्हार पाड़ा स्कूल व दक्षिण में दीनदयाल ओझा का मकान छोड़ते पूर्व की ओर भगवती केला के मकान की लाईन चान्दनमल सांवल के मकान की पुठियास तक छोड़ते हुए चान्दनमल सांवल का मकान शामिल कर, शिवशंकर जोशी के मकान की लाईन को छोड़कर मठ को छोड़ते हुए राणीदान सेवक की दुकान को छोड़ते हुए पुर्व की ओर जिन्दानी चोकी से उत्तर मधुसुदन भाटीया, सोभाग्यमल जैन, कैलाश भाटीया, दीनदयाल भाटीया से रताबाबा मन्दिर, पारस जैन का मकान शामिल करते हुए उत्तर की ओर सांवलों की बंगली, भगवानदास कामरेड से चिडिया हवेली, चूरा पाड़ा को शामिल करते हुए अशोक खोली की दुकान की लाईन छोड़कर पटवा हवेली की प्रोल से पुर्व महावीर भवन का दक्षिण पुर्वी कोना लेते हुए उत्तर की ओर मुरलीधर गंगण का मकान की लाईन शामिल करते हुए डॉ. जेठा के मकान से होते हुए उत्तर की ओर चैनसुखदास के मकान की लाईन छोड़कर पूर्व में सड़क से होते हुए इन्द्रचन्द सोनी के मकान से उत्तर की ओर

			नन्दकिशोर डांगरा के मकान से पश्चिम की ओर गली के नुक़कड़ तक व नुक़कड़ से वापिस घुमकर ओमप्रकाश खत्री, मोहनलाल सोनी का मकान छोड़ते हुए भंवरलाल खत्री व रतनलाल खत्री के मकान को लेते हुए पश्चिम की ओर धनपत खत्री का मकान लेते हुए पीपल की चौकी से उपर ललितगिरी गोस्वामी का मकान छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मदरसा के मकानों की लाईन दानमल कैला के मकान तक व परशुराम चौक को शामिल कर उपर उत्तर में सिद्धियों से मोसम अली का मकान की लाईन लेते हुए पश्चिम ICICI बैंक से रमेश टॉकीज पुठियास तक का समस्त क्षेत्र।
23	23	26	पटवा हवेली प्रोल से बाए-बाए दक्षिण की ओर चिड़िया हवेली छोड़ते हुए सड़क को शामिल करते हुए मांगीलाल सांवल के मकान से इनके मकान की लाईन को लेते हुए वासुसा धाटी का मकान व इनके मकान के सामने उत्तर दिशा में भंवरलाल कोठारी का मकान शामिल करते हुए हुकमीचन्द मदनलाल कोठारी के मकान की लाईन को लेते हुए पुर्व दिशा में केड़ीआर पब्लिक स्कूल व मकान की लाईन को शामिल करते हुए अमृतलाल चाण्डक के मकान को लेते हुए मकान के कोने से बाए घुमकर सुरजमल चाण्डक के मकान से वापस दक्षिण दिशा में डॉ जेठा का मकान को छोड़ते हुए बालकिशन कोठारी के सामने की लाईन मगना खत्री के मकान तक लेते हुए महावीर भवन के दक्षिण पश्चिमी कोने से उत्तर पटवा हवेली प्रोल तक का समस्त क्षेत्र।
24	24	15	सदर बाजार स्थित मोदी जनरल स्टोर से दक्षिण भाटीया भवन को लेते हुए सार्वजनिक मुत्रालय से सड़क को शामिल करते हुए हरीदास भाटिया के गोदाम से पुर्व की ओर सब्जी मंडी आगे गोपा चौक पीपल चौकी से चौक को शामिल करते हुए प्रमोद जोशी के मकान की लाईन छोड़ते हुए उत्तर चुरा जी की दुकान व्यास फलसा को शामिल करते हुए उत्तर की ओर केवलियों की गवाड़ी तक बायें बाये क्षेत्र समिलित करते हुए उत्तर दिशा की ओर ओमप्रकाश माली से जैन उपासरा तक मकानों को छोड़ते हुए पुष्पा देवी भाटिया का मकान छोड़ते हुए पुष्प भाटिया मुखिया जी भाटीया के मकान की लाईन पारस जैन के मकान को छोड़ते हुए रता बाबा मन्दिर की गली से अमृतलाल जी का मकान छोड़ते हुए जुगनु जंगाणी, नवरा, राजेन्द्र भाटीया का मकान लेते हुए कैलाश भाटीया का मकान छोड़ते हुए जिन्दाणी चोकी तक बाए-बाए व पश्चिम की ओर कैलाश ज्युस दुकान से होते हुए मोदी जनरल स्टोर तक का समस्त क्षेत्र।
25	25	25	पुष्पा देवी भाटिया के मकान से दक्षिण की ओर जैन उपासरा ओमप्रकाश माली के मकान को शामिल करते हुए केवलियों की गवाड़ी के सामने सड़क से चूरे जी की दुकान तक दायें दायें समस्त क्षेत्र व प्रमोद जोशी के मकान के लाईन शामिल करते हुए वापिस घुमकर नगरपालिका प्याउ को लेते हुए चौक से आसनी रोड पर स्थित मोनिका रेस्टोरेंट, भरत ज्यूस सेन्टर, मीठालाल व्यास के मकान को छोड़ते हुए होटल जीत महल सालमसिंह हवेली को शामिल करते हुए कैलाश बर्टन भण्डार तक व उपर हुकमे की चक्की लेते हुए पश्चिम की ओर महेन्द्र केवलिया के मकान की लाईन लेते हुए पश्चिम पुष्पा देवी भाटिया के मकान तक बाए-बाए समस्त क्षेत्र।
26	26	24	आसनी रोड स्थित कैलाश बर्टन भण्डार के सामने ट्रॉसफोर्मर से पश्चिम चर्चिल व्यास के मकान को लेते हुए मीठालाल व्यास के मकान से आसनी रोड होते हुए गोपा चौक व गोपा चौक से किले की दीवार से दक्षिण किला पार्किंग को शामिल करते हुए किला पार्किंग से सुलभ कॉम्प्लेक्स को लेते हुए महादेव ट्रेडर्स को लेते हुए जयनारायण भाटिया के रेस्टोरेंट को छोड़ते हुए सड़क से पुर्व की

			ओर पुनमगिरी, अखाराम प्रजापत का मकान लेते हुए उत्तर कंधारी मस्जिद को शामिल कर पूर्व की ओर अमृतलाल डांगरा के मकान शामिल कर नीचे हासम खा पुत्र शेर खों का मकान, सुमारखा की दुकान व मकान छोड़ते हुए गडीसर प्रोल तक व वापस पश्चिमी ओर चन्दनश्री रेस्टोरेन्ट को शामिल करते हुए पश्चिम खुशबू गारमेन्ट्स से पश्चिम सड़क को शामिल करते हुए कैलाश बर्तन भण्डार सामने ट्रॉसफर्मर तक का समस्त क्षेत्र।
27	27	27	ललितगिरी गोस्वामी, पूर्व की ओर यासिनअली का मकान लेते हुए रतनलाल खत्री, भंवरलाल खत्री का मकान छोड़ते हुए हरियल्लभ जी, मोहनलाल सोनी का मकान शामिल करते हुए ओमप्रकाश खत्री के मकान को शामिल कर नुक्कड़ से पूर्व की ओर बाबूखां जानमोहम्मद, रमजानअली, नेमपुरी गणेशपुरी का मकान शामिल करते हुए हीरालाल, नन्दकिशोर डांगरा का मकान छोड़ते हुए दक्षिण की ओर इन्द्रचन्द्र सोनी का मकान छोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर सूरजमल चाण्डक का मकान छोड़ते हुए आगे सड़क से उत्तर की ओर रामदेव मन्दिर, लखारा की दुकान, अमरसिंह रतनसिंह पूरबिया, जुगलकिशोर दर्जी के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा में खुशाल सोनी, फकीरा पिंजारा के मकान को लेते हुए पश्चिम की ओर धुमरी चौक छोड़ते हुए अचलदास गोरधनदास खत्री का मकान लेते हुए खेमाराम तहसीलदार, जामा मस्जिद को लेते हुए मेघवाल समाज ठिकाना की ओर भगवानदास गर्ग का मकान छोड़ते हुए बाबूखां, मोहम्मदअली का मकान शामिल करते हुए मगरे की लाईन से ललितगिरी गोस्वामी के मकान से उत्तर में रिथित मकान को लेते हुए ललितगिरी गोस्वामी के मकान तक का समस्त क्षेत्र।
28	28	28	मलका प्रोल से दक्षिण की ओर जैन भवन के सामने सड़क को शामिल करते हुए खादी भण्डार को लेते हुए ICICI बैंक की पुठियास से मोसमअली के मकानों की लाईन को छोड़ते हुए पूर्व की ओर दानमल केला के मकान से मदरसा, ललितगिरी गोस्वामी व इसके उत्तर दिशा में मकान को छोड़ते हुए मगरे से उपर के मकानों को सीढ़ीयों तक शामिल करते हुए वापिस पश्चिम की ओर अम्बेडकर भवन को शामिल करते हुए अम्बेडकर भवन से शहर पनाह दीवार गलता तक व शहर पनाह दीवार गलता से मलका प्रोल तक का समस्त क्षेत्र।
29	29	37	गणेश कोठारी के मकान से ओमजी आचार्य के मकान की ओर दक्षिण की तरफ मन्दिर व वासूसा धाटी का मकान छोड़ते हुए पूर्व की ओर बालकिशन आचार्य का मकान शामिल कर कैलाश बर्तन भण्डार को छोड़ते हुए पूर्व की ओर राजेन्द्र अवरथी, सेवक समाज बाड़ा लेते हुए सड़क के बाए-बाए रतन मेडिकल से बीकानेर स्वीट होम की लाईन को लेते हुए मधु व्यास के मकान से आनन्द व्यास का मकान से सुरज सोनी के मकान से पश्चिम की ओर जीतमल सोनी, बाबूलाल सोनी का मकान लेते हुए रामदेव बाबा मन्दिर छोड़कर दक्षिण नुक्कड़ पर नन्दकिशोर चाण्डक के मकान से पश्चिम रवि गण्डरिया के मकान की लाईन को लेते हुए केडीआर पब्लिक स्कूल के पुठियास से पश्चिम की ओर गणेश कोठारी के मकान तक का समस्त क्षेत्र।
30	30	38	नारायणदास सोनी के मकान से दोलत मोची, हंसराज मोची के मकान की लाईन लेते हुए बीकानेर स्वीट होम के पुठियास से पूर्व में गुलासतला रोड से होते हुए हनुमान जी मन्दिर को छोड़कर गली से जुगलकिशोर आसेरा के मकान को लेते हुए जुगताराम आचार्य के मकान के कोने से उत्तर की ओर गोपाल नाई के मकान को शामिल करते हुए थानाराम कालीन्दा, शेतानसिंह भाटी, बगदाद का मकान छोड़ते हुए मगाराम सुथार के मकान से उत्तर दिशा की ओर मजदूर मस्जिद को छोड़कर पूर्व की ओर अनवरखां, माताजी मन्दिर, नन्दुमल सिन्धी के मकान को लेते हुए नारायणदास के मकान तक शामिल करते हुए समस्त क्षेत्र।

31	31	39	टीकमदास सोनी (होण्डा शोरूम) को छोड़ते हुए गडीसर प्रोल से दाए—दाए पुलिस उपअधीक्षक कार्यालय को छोड़ते हुए श्रीमाली चौराहा तक व पुर्व दिशा की ओर स्वर्णनगरी चौराहा व सडक शामिल करते हुए बीकानेर मिष्ठान भण्डान से रेलवे की बाउन्ड्री से कविस्तान के दक्षिणी पुर्वी कोने से उत्तर की ओर मुख्य सडक से फायर स्टेशन, हिंगलाज माता मन्दिर को छोड़ते हुए, रेलवे बाउन्ड्री वॉल से उत्तर की ओर चडवा समाज भवन से हुकमसिंह के मकान से पतंजली स्टोर व सडक को शामिल करते हुए मुख्य सडक गाँधी कॉलोनी के डिवाईडर से दक्षिण की ओर चौराहे तक, हाउडा हरीजन के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर सडक से अख्तर अली के मकान शामिल करते हुए बगदाद के मकान के पास पतली गली से मगाराम सुथार का मकान छोड़ते हुए शैतानसिंह भाटी, थानाराम कालिन्दा का मकान लेते हुए दक्षिण की ओर जुगताराम आचार्य के मकान को छोड़कर पास की गली से पश्चिम की ओर जुगलकिशोर आसेरा का मकान छोड़ते हुए हनुमान जी मन्दिर व मन्दिर के आगे नुकड से वापस घुमकर खुशबू गारमेन्ट को छोड़ते हुए जयनारायण व्यास की दुकाने छोड़ते हुए टीकमदास सोनी की दुकान तक का समस्त क्षेत्र।
32	32	35	बाबूजी पूर्व पार्षद की दुकान से पूर्व की ओर माताजी मन्दिर को छोड़ते हुए मजदूर मस्तिष्क द को शामिल करते हुए हाउडा हरीजन के मकान से आगे चौराहा तक व उत्तर की ओर डिवाईडर से रघुनाथ दर्जी, सुलभ शौचालय को शामिल करते हुए शहरपनाह से अर्जुन प्रजापत के मकान से मनोहर दैया का मकान छोड़ते हुए दक्षिण की ओर राजमल दर्जी का मकान व पुर्व की ओर गली मे दोनो ओर के मकानो को लेते हुए दक्षिण घुमकर दोनो तरफ के मकानो को लेते हुए माताजी के मन्दिर से पश्चिम दर्जीयो के मन्दिर तक दोनो तरफ के मकानो को लेते हुए चौक के सामने सुरतनाथ के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर दलपत सोनी, जानकी भुआ, अमर खाँ का मकान लेते हुए इब्राहिम का मकान लेते हुए माणकलाल सोनी का मकान छोड़ते हुए बाबूजी पूर्व पार्षद तक का समस्त क्षेत्र।
33	33	36	मोहनलाल भाटिया से पूर्व की ओर किशोरकुमार अचलदास के मकान से पुर्व की ओर रामदेव मन्दिर, राकेश सोनी, माणकलाल सोनी के मकान से उत्तर इब्राहिम का मकान शामिल करते हुए सुरतनाथ के मकान को शामिल करते हुए सामने पीपल की चोकी से पुर्व की ओर दलपत सोनी का मकान छोड़ते हुए, दर्जीयो के मन्दिर के पुर्व में स्थित गली से अन्दर सुखदेव दर्जी के मकान से होते हुए उत्तर की ओर मदनलाल दैया तक दोनो ओर के मकान को लेते हुए मदनलाल दैया से मनोहरलाल दैया व इसके उत्तर मे अर्जुन प्रजापत का मकान शामिल करते हुए कैलाश दैया के मकान से पश्चिम की ओर रवि दैया व अमृत दैया का मकान लेते हुए हाजी मोहम्मद अली, इस्माईल मंजिल से दक्षिण की ओर फकीरा पिंजारा व खुशाल सोनी का मकान छोड़ते हुए दक्षिण की ओर जुगलकिशोर दर्जी के मकान की लाईन को शामिल करते हुए मोहनलाल भाटिया के मकान तक समस्त क्षेत्र।
34	34	29	शहर पनाह दीवार गलता से दक्षिण की ओर सडक को शामिल करते हुए अम्बेडकर भवन को छोड़कर पूर्व की ओर सीढ़ीयों तक व दक्षिण की ओर मगरे—मगरे मेघवाल समाज ठिकाना को शामिल करते हुए मोहम्मद अली, बाबूखां व मुख्यारअली का मकान व इससे पीछे बाड़ा छोड़ते हुए भगवानदास गर्ग का मकान शामिल करते हुए खेमाराम भूतपूर्व तहसीलदार का मकान छोड़ते हुए संतोकपुरी महाराज मठ से घूमरी चौक को शामिल करते हुए इस्माईल मंजिल व

			हाजी मोहम्मद अली के मकान की लाईन लेते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स तक व पश्चिम की ओर सड़क से उत्तर दिशा में नरसीलाल का मकान छोड़ते हुए खाखणाराम अजीताराम का मकान शामिल कर उपर मगरे की ढलान को लेते हुए शहर पनाह दीवार के पास मठ से उपर भुर्ज व इससे पश्चिम दिशा की ओर शहर पनाह दीवार गलता तक का समस्त क्षेत्र।
35	35	34	गॉधी कॉलोनी स्थित मधुसुदन भाटिया के मकान से भाटी अलाईमेट वर्कशॉप को छोड़ते हुए सामने से हबीबखा के मकान से सामने रेलवे बाउन्ड्री तक पूनमचन्द खत्री का मकान लेते हुए प्रेमपुरी के मकान को शामिल कर उत्तर पश्चिम दिशा में सभाभवन, दीनमोहम्मद का मकान शामिल करते हुए मुलजी खत्री की दुकान से सार्वजनिक मुत्रालय को शामिल करते हुए गॉधी कॉलोनी मुख्य सड़क के डिवाईडर से दक्षिण मधुसुदन भाटिया के मकान से सामने डिवाईडर तक का समस्त क्षेत्र।
36	36	31	सोनार समाज शमशान के पश्चिम में श्रीकिशन का मकान छोड़ते हुए सड़क के दाए—दाए निर्मल आश्रम की चारदीवारी छोड़ते हुए दामोदर गर्ग के मकान की लाईन लेते हुए मेघवाल वास स्कूल तक व पुर्व की ओर सुलभ कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हुए कैलाश दैया, अर्जुन प्रजापत का मकान छोड़ते हुए शहर पनाह की दीवार से नई सड़क सुलभ कॉम्प्लेक्स, रघुनाथ दर्जी का मकान छोड़ते हुए सड़क को शामिल करते हुए उत्तर की ओर जगदीश सुथार के मकान के सामने मुख्य सड़क के डिवाईडर से आईटीआई की दक्षिणी दीवार के सहारे खत्री समाज, सोनार समाज शमशान छोड़ते हुए दादुराम, सोमाराम के मकान तक सड़क को सम्मिलित करते हुए समस्त क्षेत्र।
37	37	33	गॉधी कॉलोनी स्थित टीवीएस शोरूम के सामने से मुख्य सड़क डिवाईडर से दक्षिण की ओर दस दुकान लादुराम पुरोहित की दुकान लेते हुए नीचे सभाभवन को छोड़ते हुए जीतमल सोनी के मकान की लाईन लेकर प्रेमपुरी का मकान छोड़ते हुए उत्तर की ओर घुमकर रेलवे लाईन के बाए—बाए दीनजी नाई के मकान के सामने गॉधी कॉलानी पार्क को लेते हुए सत्यनारायण गर्ग के मकान तक सामने अनिल सेवक, बंशीलाल विश्नोई का मकान छोड़ते हुए, नीम्बाराम विश्नोई के मकान की लाईन लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर बीएस पालीवाल के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में महाराणा प्रताप मार्ग से उत्तर दिशा में कैलाश खत्री के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम टीवीएस शोरूम के सामने डिवाईडर तक का समस्त क्षेत्र।
38	38	32	आईटीआई के सामने नाला कॉस के उपर डिवाईडर से दक्षिण की ओर बनवारी चौधरी का मकान से महाराणा प्रताप मार्ग के उत्तर दिशा में कैलाश खत्री का मकान से दक्षिण गिरधरसिंह भाटी का मकान लेते हुए पुर्व दिशा में बंशीलाल विश्नोई, अनिल सेवक के मकान की लाईन से दक्षिण से दीनजी नाई के मकान से दक्षिण मे रेलवे बाउन्ड्री के सहारे—सहारे रेल्वे फाटक तक वापिस पश्चिम घुमकर कृषि उपज मण्डी तक का समस्त क्षेत्र छोड़ते हुए पुर्व की ओर रिको के दाएं गन्दा नाला छोड़ते हुए मोहन सोनी की फेकट्री के सामने डिवाईडर से दक्षिण बनवारी चौधरी के मकान के सामने तक का समस्त क्षेत्र।
39	39	07	रामगढ़ बाईपास रोड स्थित मगरे की ढलान से नीचे पाक विस्थापित भील समाज के मकानों को लेते हुए दक्षिण की ओर मगरे के उपर स्थित पानी की टंकी को छोड़ते हुए छगन नाई का मकान छोड़ते हुए मगरे मगरे दक्षिण की ओर मगरे की ढलान से नीचे पुर्व की ओर चारदीवारी से खत्री समाज शमशान छोड़ते हुए आईटीआई चारदीवारी से उत्तर की ओर मुख्य सड़क डिवाईडर से ट्रॉसपोर्ट

			नगर चौराहा से पश्चिम की ओर रामगढ़ बाईपास पर मगरे के नीचे स्थित पाक विस्थापित भील समाज के मकान तक का समस्त क्षेत्र।
40	40	30	संगीता शंकर हरीजन के मकान के उपर मगरे—मगरे भुज के नीचे मठ से पुर्व की ओर खाखणाराम का मकान छोड़ते हुए, नरसीराम का मकान, भंवरलाल सुदा का मकान लेते हुए उत्तर की ओर हरदेव गर्ग, निर्मल आश्रम को शामिल करते हुए श्रीकिशन के मकान तक पुर्व की ओर सोनार समाज शमशान की चारदीवारी से खत्री समाज शमशान की उत्तरी चारदीवारी से उत्तर की ओर पुष्पा राजु हरीजन के मकान से पश्चिम संगीता हरीजन के मकान तक का समस्त क्षेत्र।
41	41	08	रामगढ़ बाईपास पर डेडानसर मैदान के पीछे स्थित मगरे से दक्षिण दिशा में होते हुए जीवणियाई तालाब को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा में सड़क से कालुराम माली तक मकानों को शामिल कर उत्तर की ओर राणीदान सेठ का मकान से सड़क से होते हुए तेजाराम प्रजापत का मकान छोड़ते हुए श्रवणलाल हरीजन के मकान से उत्तर की ओर मगरे की ढ़लान से नीचे पाक विस्थापित भील समाज के मकानों को छोड़ते हुए रामगढ़ बाईपास रोड़ से पश्चिम की ओर नगरपरिषद के नीलाम भूखण्ड से आगे डेडानसर मैदान के मगरे तक का समस्त क्षेत्र।
42	42	09	श्रवणलाल हरीजन का मकान छोड़ते हुए सड़क से बाए—बाए अमानाराम बोरावट, मांगीलाल प्रजापत, किशनसिंह भाटी, शेखर आचार्य का मकान लेते हुए कालुराम माली का मकान छोड़ते हुए मुख्य सड़क से दक्षिण की ओर डिस्पेंसरी की जमीन के पास पुलिया से पुर्व की ओर सड़क से होते हुए उत्तर की ओर घुमकर ओमजी रंगा के मकान को छोड़ते हुए, भोमजी थानवी के मकान से पश्चिम भंवरलाल रामदेव के मकान से नगरपरिषद की निर्मित दुकानों को शामिल कर सड़क से उत्तर की ओर लीलाधर प्रजापत के मकान को छोड़ते हुए ओमकार भार्गव के मकान को छोड़ते हुए पूर्व से उत्तर नरपत सिंह सोढा का मकान छोड़ते हुए पदमपुरी का मकान छोड़ते हुए पूर्व दिशा में छगन नाई व रमजान तेली का मकान लेते हुए पानी की टंकी की पूर्वी दिवार से उत्तर की ओर मगरे की ढ़लान से नीचे भील बस्ती व पाक विस्थापित भील समाज के मकानों को छोड़ते हुए वापिस दक्षिण की ओर श्रवणलाल हरिजन के मकान की ओर जाने वाली सड़क के बाए—बाए स्थित समस्त क्षेत्र।
43	43	10	मलका प्रोल सड़क पर डिस्पेंसरी की जमीन के पास पुलिया से दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क से मलका प्रोल तक पुर्व की ओर शहरपनाह की भुज से मगरे के उपर—उपर माणकलाल साध के मकान तक व पश्चिम की ओर सड़क को शामिल करते हुए गिरधरपुरी से लीलाधर प्रजापत के मकान तक लाईन शामिल करते हुए ओमकार भार्गव व उसके पूर्व नरपत सिंह सोढा का मकान लेते हुए पदम पूरी का मकान लेते हुए नगरपरिषद की निर्मित दुकानों को छोड़ते हुए पुर्व दिशा में ओमजी रंगा का मकान लेते हुए दक्षिण घुमकर वापिस पुर्व दिशा की ओर डिस्पेंशरी की जमीन के पास पुलिया तक का समस्त क्षेत्र।
44	44	16	किले के उत्तरी पश्चिम कोने पर स्थित सार्वजनिक मुत्रालय से उपर भुज को लेते हुए दक्षिण की ओर किशोर पुरोहित, लक्ष्मणसिंह गोपा, प्रकाश जी व्यास, सुरेन्द्रजी गोपा का मकान शामिल करते हुए कैलाश गोपा का मकान छोड़ते हुए नीम के पेड़ से पूर्व की ओर लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर लेते हुए दशहरा चौक तक वापिस पश्चिम की ओर घुमकर अन्नपूर्णा पुठियास से दक्षिण और बा री हवेली को शामिल करते हुए किले की भुज से पुर्व की ओर सुलभ कॉम्प्लेक्स पुठियास से कोटडी पाडा को शामिल करते हुए किले के प्रथम गेट से पश्चिम की ओर सिटी व्यू पाईन्ट नोर्थ लेते हुए पश्चिम की ओर सार्वजनिक मुत्रालय के

			उपर स्थित भुज व इस क्षेत्र के अन्तर्गत किले की बाहरी दीवार को लेते हुए समस्त क्षेत्र।
45	45	17	कैलाश गोपा के मकान से दक्षिण की ओर सुरेन्द्र जी गोपा, प्रकाश जी व्यास का मकान छोड़ते हुए मदनलाल बरसा के मकान के बाहर स्थित भुज से किले की दक्षिणी कोने से पुर्व की ओर बा री हवेली के पास स्थित भुज से उत्तर की ओर बा री हवेली व अनपुर्णा पुठियास छोड़ते हुए दशहरा चोक को छोड़ते हुए वापिस घुमकर लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर छोड़ते हुए कैलाश गोपा के मकान तक का समस्त क्षेत्र।

सुखराम खोखर (RAS)

आयुक्त

नगर परिषद् जैसलमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।